

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 632]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2014—पौष 8, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1786.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, टिमरनी, जिला हरदा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, टिमरनी, जिला हरदा.	अध्यक्ष	-	-	-	गायत्री विजय गोयल	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	संदीप कैथवास	निर्दलीय	
3		पार्षद	2	दो	संगीता पत्नी मनोज भैसारे	भारतीय जनता पार्टी	
4		पार्षद	3	तीन	रेखा पंकज तिवारी	भारतीय जनता पार्टी	
5		पार्षद	4	चार	नरसिंह राजपूत “गणेश”	भारतीय जनता पार्टी	
6		पार्षद	5	पांच	दीपक शर्मा (पप्पू शर्मा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
7		पार्षद	6	छः	जितेन्द्र जसपाल एडव्होकेट	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
8		पार्षद	7	सात	अमरदास “गुड्डू”	भारतीय जनता पार्टी	
9		पार्षद	8	आठ	नन्हेलाल कौशल	भारतीय जनता पार्टी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	नगर परिषद्, टिमरनी, जिला हरदा.	पार्षद	9	नौ	श्रीमति आशा तोताराम कौशल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	शहजाद खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमति मीना संतोष ताम्बुलकर	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति कान्ता बाई रामअवतार चन्देल	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	कांता स्व. गोविन्द प्रसाद गुहा	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	निम्मा धर्मेन्द्र कौशल	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रुकमणी अशोक	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1787.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, खिरकिया, जिला हरदा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	नगर परिषद्, खिरकिया, जिला हरदा	अध्यक्ष	-	-	-	यशोदा दुर्गादास पाटिल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	एक	अनिल कवरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	दो	नजमाबी W/O मुस्तकीम अहमद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	तीन	जगदीश धार्मिक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	चार	आशीष अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	पांच	संगीता सुशील	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	छः	मुमित (डम्पी) S/O चन्द्रकांत नागडा	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सात	राजेश मालू (राजू)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	आठ	कपिल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	नौ	नितिन पूनम चंद गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	दस	रंजना रामनिवास पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	ग्यारह	बसु बाई पत्नी किशोरी काका	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	बारह	कविता रमेश मीणा	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	तेरह	सविता बाई	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	चौदह	ममता मानसिंह	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	पन्द्रह	मीना अनिल	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.